

## Vacancy for the Temporary Posts

Applications are invited for the following posts under DST/DBT funded project in Microbiology Department, All India Institute of Medical Sciences Ansari Nagar, New Delhi-110029

Date of advertisement: 27-02-2024


Last date of application: 12-03-2024

S.No.	Name of the Post	Qualification/Experience Required	Upper Age Limit (years)	Salary
1	Project Scientist-D	<p><b>Essential Qualifications:</b> A professional with MD or Ph. D Bioinformatics from recognized institution. The ideal candidate will have experience in handling and analysing Next- generation sequencing data.</p> <p><b>Experience:</b> The successful candidate will have minimum of 7 year of experience in research and development in the field.</p> <p><b>Desirable Qualification:</b> Experience in Bioinformatics Epidemiological related studies / Molecular Biology and Next Generation Sequencing will be an added advantage.</p>	45	As per rules
2	Project Scientist-I	<p><b>Essential Qualifications:</b> A professional with MD or Ph.D degree with 1<sup>st</sup> Class Master Degree in Bioinformatics/Microbiology from recognized university. The ideal candidate will have experience in handling and analysing Next- generation sequencing data.</p> <p><b>Experience:</b> The successful candidate will have minimum of 4 year of experience in research and development in the field</p> <p><b>Desirable Qualification:</b> Experience in Bioinformatics Epidemiological related studies / Molecular Biology and Next Generation Sequencing will be an added advantage.</p>	35	

Interested candidates may share their detailed CV to the following email ID: [tblabmicroaiims@gmail.com](mailto:tblabmicroaiims@gmail.com)  
Dated 12-03-2024

Department of Microbiology  
All India Institute of Medical Sciences  
Ansari Nagar, New Delhi-110029

**Only short-listed candidate will be called for interview and intimated only through e-mail. No TA or DA will be paid for attending the interview. The post is temporary and co-terminus with the project.**

  
27/2/24  
डॉ. उर्वशी बी. सिंह/Dr. URVASHI B SINGH, M. Sc.  
आचार्य/Professor  
एन जीव विज्ञान विभाग/Dept of Microbiology  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
All India Institute of Medical Sciences  
अंसरी नगर नई दिल्ली/Ansari Nagar, New Delhi-110029

## अस्थायी पदों के लिए रिक्ति

सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 में डीएसटी/डीबीटी वित्तपोषित परियोजना के तहत निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।


विज्ञापन की तिथि: 27-02-2024  
आवेदन की अंतिम तिथि: 12-03-2024

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता / अनुभव आवश्यक	ऊपरी आयु सीमा (वर्ष)	वेतन
1	परियोजना वैज्ञानिक - D	<p><b>आवश्यक योग्यताएं:</b> मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी या पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ एक पेशेवर। आदर्श उम्मीदवार के पास अगली पीढ़ी के अनुक्रमण डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने का अनुभव होगा।</p> <p><b>अनुभव:</b> सफल उम्मीदवार के पास क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होगा।</p> <p><b>वांछनीय योग्यता:</b> जैव सूचना विज्ञान, महामारी विज्ञान से संबंधित अध्ययन/आणविक जीव विज्ञान और अगली पीढ़ी के अनुक्रमण में अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा।</p>	45	नियमों के अनुसार
2	परियोजना वैज्ञानिक - I	<p><b>आवश्यक योग्यताएं:</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोइन्फॉर्मेटिक्स/माइक्रोबायोलॉजी में प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री के साथ एमडी या पीएचडी डिग्री वाला पेशेवर। आदर्श उम्मीदवार के पास अगली पीढ़ी के अनुक्रमण डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने का अनुभव होगा।</p> <p><b>अनुभव:</b> सफल उम्मीदवार के पास क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव होगा।</p> <p><b>वांछनीय योग्यता:</b> जैव सूचना विज्ञान, महामारी विज्ञान से संबंधित अध्ययन/आणविक जीव विज्ञान और अगली पीढ़ी के अनुक्रमण में अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा।</p>	35	

इच्छुक उम्मीदवार अपना विस्तृत सीवी निम्नलिखित ईमेल आईडी पर साझा कर सकते हैं:

[tblabmicroaiims@gmail.com](mailto:tblabmicroaiims@gmail.com) दिनांक 12-03-2024

माइक्रोबायोलॉजी विभाग  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

  
 डॉ. उर्वशी बी. सिंह/Dr. URVASHI B. SINGH, MD. PhD  
 प्राचार्य/Professor  
 सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग/Dept. of Microbiology

केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और केवल ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए या डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। पद अस्थायी है और परियोजना के साथ सह-टर्मिनस है।